

"सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, वरना प्रगति के रास्ते में बाधा आ जाएगी...!" -लाला लाजपत राय

पर्यटन प्रमुख समाचार संक्षेप - अंतर्राष्ट्रीय



मोनाको ने जिम्मेदार पर्यटन रणनीति का 'चरण 1' लॉन्च किया:

मोनाको एक पर्यावरण के अनुकूल लक्जरी गंतव्य होने के लिए जाना जाता है क्योंकि विलासिता और स्थिरता में बहुत कुछ समान है। आगे की सोच के साथ सरकार, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने में अपने सभी भागीदारों को शामिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध मोनाको कई पर्यावरण अनुकूल कार्यों को लागू कर रहा है।



अधिक सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें चल रही हैं जैसे कि 2030 से पहले अपने कार्बन उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की प्रतिबद्धता।

ट्रैवल टेक शो ने अपने 2021 की योजना घोषणा की: ट्रैवल टेक शो जिसे पहले ट्रैवल टेक्नोलॉजी यूरोप के नाम से जाना जाता था, ने 2021 के लिए अपने कार्यक्रम योजना की घोषणा की है। यह वैश्विक यात्रा तकनीक बाजार पर केंद्रित है, जिसमें 'पोस्ट-पैंडेमिक क्लाउड', 'विकसित तकनीक' और 'उभरते नए ट्रैवल ट्रेड' के बारे में चर्चा शामिल है। यह शो वैश्विक निर्णय लेने वाले प्रौद्योगिकी खरीदारों को उनके पर्यटन व्यवसाय के लिए नए नवीन और तकनीकी समाधान खोजने में मदद करने के लिए एक साथ लाता है। यह कार्यक्रम वर्चुअल रूप से 14 और 15 सितंबर को होगा।

यूरोपीय संघ ने अपनी यात्रा पासपोर्ट योजना में तुर्की को शामिल किया: यूरोपीय आयोग ने घोषणा की कि यूरोपीय संघ शुरुवार तक तुर्की के कोविड-19 प्रमाणपत्रों को स्वीकार करेगा। यूरोपीय संघ के निर्णय लेने वाले निकाय ने कोविड-19 प्रमाणपत्रों के लिए समान प्रस्तावों को अपनाया। तुर्की, उत्तरी मैसेडोनिया और यूक्रेन के अधिकारियों ने वे प्रमाण पत्र जारी किए। इस निर्णय के साथ, तुर्की ब्लॉक के कोविड-19 पास सिस्टम में शामिल हो गया।

ब्रिटेन के रेल यात्रियों को करना पड़ सकता है सबसे बड़ी किराया वृद्धि का सामना: यूनाइटेड किंगडम में रेल यात्रियों को अगले साल अपने टिकट की कीमतों में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि किराए को स्थिर करने की मांग के बावजूद एक दशक में सबसे बड़ी वृद्धि है। किराए में आमतौर पर हर जनवरी में वृद्धि की जाती है लेकिन कोरोनावायरस महामारी का मतलब है कि इस साल की वृद्धि 1 मार्च तक देरी से हुई थी।



ब्रिटेन के रेल यात्रियों को करना पड़ सकता है सबसे बड़ी किराया वृद्धि का सामना: यूनाइटेड किंगडम में रेल यात्रियों को अगले साल अपने टिकट की कीमतों में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि किराए को स्थिर करने की मांग के बावजूद एक दशक में सबसे बड़ी वृद्धि है। किराए में आमतौर पर हर जनवरी में वृद्धि की जाती है लेकिन कोरोनावायरस महामारी का मतलब है कि इस साल की वृद्धि 1 मार्च तक देरी से हुई थी।

पर्यटन प्रमुख समाचार संक्षेप - राष्ट्रीय



पर्यटन के बुनियादी ढांचे में टूरिस्ट गाइड को शामिल करने से

गंतव्यों की बेहतर समझ होगी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई पर्यटन संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि पर्यटन के माध्यम से देश न केवल आम आदमी को जोड़ रहा है, बल्कि खुद भी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पर्यटन के बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में पर्यटक गाइडों को शामिल करने के बारे में भी जानकारी दी ताकि पर्यटकों को गंतव्यों और ट्रेल्स की बेहतर समझ हो सके। अपने पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, हमने ई-बीजा, बीजा ऑन अराइवल जैसी सेवाएं शुरू कीं और आतिथ्य जीएसटी को और कम किया, उन्होंने उल्लेख किया।

आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है केरलवासियों का सबसे बड़ा त्योहार थिरुवोणम:

दुनियाभर में रह रहे केरल के लोग आज थिरुवोणम मना रहे हैं। यह केरल के सबसे बड़े सांस्कृतिक त्योहार ओणम का पहला दिन है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य के सभी धर्मों के लोग अपने घरों में रहते हुए ही इसमें शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को ओणम पर बधाई दी है।



महामारी के बाद यात्रा के फैसलों में मानसिक स्वास्थ्य को मिलेगा महत्व:

एक वैश्विक एंड-टू-एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट सर्विसेज और ट्रैवल मेडिकल कंपनी कोलिन्सन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के यात्रा निर्णयों में मानसिक भलाई महत्वपूर्ण होगी। 84 प्रतिशत भारतीय यात्रियों ने कहा कि वे अपनी मानसिक भलाई को अधिक प्राथमिकता देंगे जब वे महामारी से पहले की तुलना में अब यात्रा करेंगे।

23 अगस्त से आईएटीए ट्रैवल पास का परीक्षण शुरू करेगी स्पाइसजेट:

यात्रियों का विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में, स्पाइसजेट डिजिटल स्वास्थ्य सत्यापन के लिए आईएटीए (इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) ट्रैवल पास मोबाइल ऐप का परीक्षण शुरू करेगा। यह ट्रायल 23 अगस्त से मुंबई से माले के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में होगा। आईएटीए ट्रैवल पास एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो यात्रियों को कोविड -19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए उनके सत्यापित प्रमाणपत्रों को संग्रहीत और प्रबंधित करने में मदद करता है।

अब आसमान से करें उदयपुर दर्शन:

कल (22 अगस्त) से मेवाड़ के प्रमुख पर्यटन स्थल उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और राजसमंद हवाई सेवा से जुड़ने जा रहे हैं। हर साल देश-विदेश से आने वाले लाखों पावणे अब आसमान से



